

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा - II), पश्चिम बंगाल
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II), WEST BENGAL
3rd MSO Building, CGO Complex, 5th Floor, DF Block,
Sector- I, Salt Lake, Kolkata – 700 064
E-mail: agauwestbengal2@cag.gov.in

सं . प्रशा. I/13-20/Vol.V/25-26/218

दिनांक: 29.10.2025

कार्यालय परिपत्र

निम्नलिखित परिपत्र का संलग्न पाएं:

SL. No.	Details of the letter	Content of the letter
01	No.Admn(Au)/U-IV/PS/2025-26/377 dated 28.10.2025	अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति सेवानिवृत्त अधिकारी संलग्न प्रपत्र में अपना बायोडाटा, पिछले 5 वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APAR) के साथ, डाक द्वारा या ईमेल agausikkim@cag.gov.in पर 10.11.2025 तक डाक द्वारा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) सिक्किम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। Hiring of Retd Sr. Audit Officers on short term contract basis Retired officers may submit their Bio-data in the enclosed proforma alongwith self-attested copies of APARs of last 5 years' service to DAG , O/o the AG(Audit) Sikkim by post or email agausikkim@cag.gov.in by 10.11.2025

संलग्न: उपरोक्त वर्णित

Digitally signed by
ASHUTOSH BISWAS
Date: 29-10-2025
13:20:51

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशा.।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II), पश्चिम बंगाल के सचिव को
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ईडीपी-एससी को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रसार हेतु ।
3. सूचना पट्ट।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी / प्रशा.।
न.पा.ल
29/10/25

Fwd: [Cag-all-offices] Hiring of Retired Sr Audit Officer on short term contract basis reg.

PAG Audit II West Bengal < agauwestbengal2@cag.gov.in >

Wed, 29 Oct 2025 10:42:40 AM +0530

To "Sathish M"<msatish@cag.gov.in>

Cc "ASHUTOSH BISWAS"<biswasa.wbl.sca@cag.gov.in>,"Chiranjit Ghosh"<chiranjitg.wbl.au@cag.gov.in>,"Tanishtha Pal"<tanishthap.wbl.au@cag.gov.in>,"Admn I Audit II West Bengal"<admn1gen.wbl2.au@cag.gov.in>,"Suprajit Gain"<suprajitg.wbl.au@cag.gov.in>

===== Forwarded message =====

From: AG AU Sikkim <agausikkim@cag.gov.in>

To: "CAG-ALL-OFFICES"<cag-all-offices@ismgr.nic.in>

Date: Tue, 28 Oct 2025 15:34:48 +0530

Subject: [Cag-all-offices] Hiring of Retired Sr Audit Officer on short term contract basis reg.

===== Forwarded message =====

महोदय/ महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर पत्र आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

धन्यवाद।

आपका आभार,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किमCAG-ALL-OFFICES mailing list -- cag-all-offices@ismgr.nic.inTo unsubscribe send an email to cag-all-offices-leave@ismgr.nic.in

कार्यालय प्रधानमहालेखाका
र (लेखापरीक्षा II)
पश्चिम बंगाल
OFFICE OF THE
PRINCIPAL
ACCOUNTANT
GENERAL
(Audit-II), West Bengal

महोदय/ महोदया,

इस ई-मेल के साथ ऊपर उल्लिखित विषय पर जानकारी संलग्न की गई है। कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु इस ई-मेल के संलग्नक से डाउनलोड कर लें।

The information on the subject as cited above has been attached with this E - mail. Kindly download the attachment for further necessary action at your end.

Disclaimer :

This e-mail and its attachments may contain official Indian Government information. If you are not the intended recipient, Please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized. The responsibility lies with the recipient to check this email and any attachment for the presence of Viruses.



Tanishtha ph.
by
29/10/25

1 Attachment(s)

10/29/25, 12:01 PM

Fwd: [Cag-all-offices] Hiring of Retired Sr Audit Officer on short term contract basis reg.

Hiring of Retired Sr Audit Offic...
724 KB



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
निर्वाण संस्थान
Dedicated to Truth in Public Interest

No. Admn(Au)/U-IV/PS/2025-26/377

Dated: 28 OCT 2025

NOTICE

Applications are invited from retired Senior Audit Officer for appointment to the post of 01 (one) Consultant on short term contract basis in the Office of the Accountant General (Audit), Sikkim, in accordance with the terms and conditions prescribed by the C&AG Headquarters Office Circular No. 25-2025 issued under Letter No 1180-Staff (App)-I/22-2016 dated 08/07/2025.

The following broad terms and conditions will be applicable for appointment to the contractual post:

1. The age of the applicant should not be beyond 65 years.
2. Retired person will be initially appointed for a period of **one-year**, extendable upto a maximum for **five** terms, subject to performance and requirement of service.
3. Remuneration and allowances payable will be governed by OM No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09-12-2020, issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, which are as under:
 - a. A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
 - b. An appropriate and fixed amount as Transport Allowances for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement.
 - c. No annual increment/percentage increases, Dearness Allowances and House Rent Allowance shall be allowed during the contract.
4. Paid leave of absence will be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of contract service to the retired Officer/Official. Accumulation of leave beyond a calendar year will not be allowed. However, absence during curfew, bandh, strike, lockdown should be dealt with in a similar way as in the cases of serving officers/officials.
5. If thenretired officer/official hired on the short-term basis remain absent, beyond paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/her remuneration shall be deducted on pro-rata basis under:

Fixed monthly remuneration X No. of days of absence on working days
22


6. Statutory deductions levied by the Union/Government shall be made as per rules.
7. The appointment will be purely on a temporary basis and is subject to termination at any time.
8. The retired Officers/Officials selected to be hired on short term contract basis shall sign an agreement of confidentiality containing a clause on Ethics and integrity.

Willing and eligible retired officers of the IA&AD may submit their application. along with Bio-data and self-attested copies of APARs of last five years of service. Applications duly filled in all respects must reach the undersigned either by post or through e-mail at agausikkim@cag.gov.in latest by 10/11/2025.

Deputy Accountant General

Copy to

1. All Heads of Department of IA&AD
2. Admin (Audit) for publishing on Office Website
3. Notice Board



Sr. Audit Officer/ Admin

APPLICATION FORM

Sl. No.	Particulars	
1	Name of the Retired Officer/ Official	
2	Post held at the time of retirement	
3	Post applied for engagement as consultant	
4	Residential Address for communication	
5	E-mail ID	
6	Mobile Number	
7	Date of Birth	
8	Date of Entry in Government Service	
9	Date of Retirement	
10	Experience for last five years	Attach separate sheet along with copies of APAR for 5 years
11	Additional information, if any, on Professional Experience	

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

SIGNATURE OF THE APPLICANT

Date: